

16th May, 2024

The Manager,
Listing / Market Operation,
National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, Plot no. C/1, G Block,
Bandra – Kurla Complex,
Bandra (E),

Ref. No.: 102239/S/O/L-1/2024-25

The Manager, Corporate Relationship Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

NSE Code - ASAHIINDIA

BSE Code - 515030

Sub: Publication of Audited Financial Results for the fourth quarter and year ended 31st March, 2024

Dear Sir / Madam,

Mumbai - 400 051

Pursuant to provisions of Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copy of Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and year ended 31st March, 2024, as published in "Business Standard", all editions and "Veer Arjun", New Delhi on 16th May, 2024.

You are requested to kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours truly,

For Asahi India Glass Limited,

Gop l Ganatra

**Executive Director** 

anoth

General Counsel & Company Secretary

Membership No.: F7090

Encl.: As above

Asahi India Glass Ltd.
Corporate Office: Unit No. 301-308,
1101-1104, 3rd and 11th Floor, Tower-D,
Global Business Park, M. G. Road,
Gurugram- 122002 Haryana (India)
Tel.: +91 124 4062212-19
Fax: +91 124 4062244, 4062288
website: www.aisglass.com
Corporate Identity Number: L26102DL1984PLC019542

# LG bets on premium TV

Launches 55 Al-powered models, expects 30% growth in FY25

AKSHARA SRIVASTAVA New Delhi, 15 May

n a push for its premium TV portfolio, LG Electronics on Wednesday launched 55 AIdriven models, ranging from 43inch to 97-inch, to tap into the in the category.

Indian market is at 32-inch. However, that market is not growing as the customers are increas- inch and 65-inch sets," he said. ingly looking to buy screen sizes

India, told Business Standard.

market is driving growth for the witnessed last year. industry, Bhansali said.

bigger screen sizes and to retain ematic experience at home. With its position as the market leader the IPL going on, people also want market, as people upgrade to 55-

With a 27.1 per cent share, LG is segments," he added.

upwards of 43-inch," Abhiral the market leader in the TV seg-Bhansali, business head - home ment in the country. The Korean entertainment, LG Electronics electronics major expects to grow 30 per cent this year, in line with The premium segment of the the 25 per cent growth the company

The 55-inch TV category is fast "More consumers are upgrading becoming a bigger chunk of the growing Indian market for to larger screens as they want a cin-market for the company, recording a growth of 30-35 per cent, he said.

"The 65-inch category is growto replicate the feeling of being in a ing much faster. Pegging growth in "Currently, the majority of the stadium inside their homes. These the 75-inch category at 3 times factors are helping growth of the would be understatement as the segment is still very small. India is seeing a major jump in all those

## ReNew, Société Générale sign \$1 bn MoU

New Delhi, 15 May

public statement on Wednesday said it had signed a memorandum of understanding (MoU) with European bank Société Générale to support the

MoU, which references up to Nasdaq-listed ReNew in a \$1 billion of support over the next three years, primarily including debt financing and advisory solutions, both parties will leverage their respective expertise to said that this collaboration strengthen the collaboration

of its projects. "Under the ects including solar, wind, complex renewables, green hydrogen, energy storage, and solar modules manufacturing," the statement said.

Sumant Sinha, founder, chairperson and CEO, ReNew, would contribute towards financing and development on utility-scale energy proj- India's net-zero goals.

### RED.Health raises \$20 mn from Jungle Ventures, others

from existing and new investors, including response time, it added.

Medical emergency response platform HealthQuad, HealthX, and Alteria Capital, it RED.Health on Wednesday said it had raised said in a statement. The company intends to \$20 million (around ₹167 crore) in Series B utilise the funds to bring in technology-driven funding round. The new investment was led solutions like auto-dispatch system that will by Jungle Ventures and saw participation minimise human errors and optimise

### Tech team from India powers Uber Eats to 1mn global merchants

PEERZADA ABRAR Bengaluru, 15 May

Uber recently surpassed one million merchants worldwide team based out of India played a key role in this, according to the company. Merchants on Uber Eats include restaurants, cafes, grocery stores, and other convenience outlets that reach customers through the app.

The Indian tech

team played a part in developing and running multiple features on the app such as artifical intelligence-powered menu reader, and its engineering Bring Your Own Courier that also allows tracking deliveries managed by restaurants, and Eats Payment integration.

"Most of our merchant tech is supported out of India," said Jaiteerth Patwari. director - engineering. Uber and head, Eats Engineering.

### TPNØDL

TP NORTHERN ODISHA DISTRIBUTION LIMITED (A Tata power and Odisha Govt. Joint Venture)

Regd. Off: Corp Office, Januganj, Remuna Golei, Balasore, Odisha-756019 CIN No.: U40106OR2021SGC035951; Website: www.tpnodl.com

NOTICE INVITING TENDER (NIT) May 16th, 2024 TP Northern Odisha Distribution Limited invites tender from eligible Bidders for the following: Tender Enquiry No. **Work Description** 1 TPNODL/OT/2024-25/2500000665 PO for supply of Digital Insulation Tester Rate Contract for Inspection & Servicing / Rectification o TPNODL/OT/2024-25/2500000673 11KV of 33kV &11kV I/D switch gears at PAN TPNODL

3 TPNODL/OT/2024-25/2500000674 2 Years Rate Contract for on call Vehicle service at PAN TPNODL.

4 TPNODL/OT/2024-25/2500000658 Rate Contract for Scrape Auction MSMEs registered in the State of Odisha shall pay tender fee of **Rs.1,000/-** including GST.

\* EMD is exempted for MSMEs registered in the State of Odisha.

For more details like bid due date, EMD, tender fee, bid opening date etc. of the Tenders, please visi "Tender" section TPNODL website https://tpnodl.com. All tenders will be available on TPNODL website. Future communication / corrigendum to tender documents, if any, shall be available on website.

#### **GANGES SECURITIES LIMITED**

Registered Office: P.O. Hargaon, District Sitapur, Uttar Pradesh - 261 121 Phone (05862) 256220, Fax (05862) 256225, CIN : L74120UP2015PLC069869 Web-site: www.birla-sugar.com, E-mail: gangessecurities@birlasugar.org

EXTRACT OF THE AUDITED FINANCIAL RESULTS								
FOR THE QUARTER AND YEAR MONTHS ENDED 31ST MARCH 2024 (₹ in li								
$\parallel_{-}$			Standalone	ı	Consolidated			
Sr. No		Quarter	Year	Quarter	Quarter	Year	Quarter	
"		ended	ended	ended	ended	ended	ended	
		31.03.2024		31.03.2023	31.03.2024	31.03.2024	31.03.2023	
⊩			(Audited)			(Audited)		
1	Total Income from operations	70.87	1,068.58	167.34	263.87	3,482.08	447.31	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax	,						
	Exceptional and / or Extraordinary items)	10.71	920.64	121.42	(430.68)	590.93	(282.26)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after							
	Exceptional and / or Extraordinary items)	10.71	920.64	121.42	(430.68)	590.93	(282.26)	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax							
	(after Exceptional and / or Extraordinary items)	6.68	689.80	89.63	(401.03)	347.90	(273.62)	
5	Total Comprehensive Income for the period							
	[Comprising Profit for the period (after tax)							
	and Other Comprehensive Income (after tax)]	(5,398.72)	9,798.03	(11,913.78)	(5,845.41)	9,407.73	(12,299.48)	
6	Equity Share Capital	1,000.37	1,000.37	1,000.37	1,000.37	1,000.37	1,000.37	
7	Other Equity							
8	Earning per share (of ₹10/- each)(in ₹) :							
	Basic & Diluted	0.07 *	6.90	0.90 *	(4.01) *	3.48 *	(2.74) *	
* Not appurpled								

#### Not annualised

- . The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.birla
- There is no extra ordinary item during the above periods

For and on behalf of Board of Director GANGES SECURITIES LIMITED Urvi Mitta Place : Kolkata Managing Directo Date: 15th May, 2024

CIN: L26102DL1984PLC019542 Registered Office: A-2/10, 1st Floor, WHS DDA Marble Market, Kirti Nagar, New Delhi -110015, Phone: (011) 49454900 Corporate Office: 3<sup>rd</sup> Floor, Tower D, Global Business Park, Mehrauli - Gurugram Road, Gurugram – 122 002 (Haryana) Phone: (0124) 4062212-19; Fax: (0124) 4062244/88 Email: investorrelations@aisglass.com, Website: www.aisglass.com

(₹ Lakt							
S. No.	Particulars	Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Year ended		
		31.03.2024	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2023		
		Audited	Audited	Audited	Audited		
1	Total Income from Operations	1,10,741	4,36,586	1,07,726	4,03,515		
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	10,032	44,257	11,232	56,333		
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	10,032	44,257	11,232	56,333		
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	7,325	32,505	6,807	36,167		
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	7,380	32,561	6,806	36,037		
6	Equity Share Capital	2,431	2,431	2,431	2,431		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	2,05,022					
8	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)						
	(a) Basic (b) Diluted	3.04 3.04	13.49 13.49	2.84 2.84	15.01 15.01		

KEY STANDALONE FINANCIAL INFORMATION FOR THE FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED 31" MARCH, 2024								
(₹ Lakhs								
S. No.	Particulars	Quarter ended	Year ended	Quarter ended	Year ended			
		31.03.2024	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2023			
		Audited	Audited	Audited	Audited			
1	Total Income from Operations	1,03,363	4,17,726	1,03,923	3,93,984			
2	Profit before tax	10,229	45,380	11,579	57,510			
3	Profit after tax	7,606	33,553	6,954	36,782			

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com & www.nseindia.com respectively and on company's website a www.aisglass.com.
- The above financial results have been reviewed by the Audit & Risk Management Committee on 14th May, 2024 and approved by the Board of Directors at their meeting held on 15th May, 2024.
- The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ("Ind AS") notified under the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016, recognition and measurement principles in Ind AS 34 Interim Financial Reporting prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India
- The Board of Directors have recommended a dividend of ₹ 2/- per equity share of face value of ₹ 1/- each for financial year 2023-24 The payment is subject to approval of the shareholders at the ensuing Annual General Meeting of the Company

For and on hehalf of Board of Directors Saniay Labroo

Chairman & Managing Director

## **BERGER PAINTS INDIA LIMITED**

[CIN: L51434WB1923PLC004793]

Registered Office: Berger House, 129 Park Street, Kolkata 700 017 Phone: 033 2249 9724-28 • Fax: 033 2227 7288 Email: consumerfeedback@bergerindia.com • Website : www.bergerpaints.com

#### **EXTRACT OF THE AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS** FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31ST MARCH, 2024

(₹ Crores)

SI. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)
1	Total Revenue from Operations	2,520.28	2,881.83	2,443.63	11,198.92	10,567.84
2	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	294.05	397.85	257.93	1,556.89	1,162.34
3	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	222.62	300.16	186.01	1,169.82	860.40
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)					
	and Other Comprehensive Income (after tax)]	221.49	313.46	181.75	1,192.11	864.76
5	Paid up Equity Share Capital [Face Value ₹ 1/-]	116.58	116.57	97.14	116.58	97.14
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				5,262.39	4,396.98
7	Securities Premium	113.21	129.34	127.47	113.21	127.47
8	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (Not Annualised #)					
	Basic (in ₹)	1.91#	2.57#	1.59#	10.02	7.37
	Diluted (in ₹)	1.90#	2.57#	1.59#	10.02	7.37

#### Notes:

1. Ac	1. Additional information on Standalone Financial Results: (₹ Crores)						
SI. No.	Particulars	Quarter Ended 31.03.2024 (Audited)	Quarter Ended 31.12.2023 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2023 (Audited)	Year Ended 31.03.2024 (Audited)	Year Ended 31.03.2023 (Audited)	
	Total Revenue from Operations	2,249.14	2,574.20	2,189.29	10,002.93	9,470.62	
2	•	2,243.14	2,574.20	2,103.23	10,002.33	3,470.02	
	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	246.01	355.39	262.86	1,367.46	1,102.72	
3	Net Profit / (Loss) for the period after Tax						
	(after Exceptional and / or Extraordinary items)	181.59	263.25	196.21	1,015.05	828.39	
4	Total Comprehensive Income for the period						
	[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)						
	and Other Comprehensive Income (after tax)]	181.77	263.64	193.90	1,015.19	827.84	
5	Paid up Equity Share Capital [Face Value ₹ 1/-]	116.58	116.57	97.14	116.58	97.14	
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve)				4,888.66	4,198.05	
7	Securities Premium	113.21	129.34	127.47	113.21	127.47	
8	Earnings Per Share (of ₹ 1 /- each)						
	(Not Annualised #)						
	Basic (in ₹)	1.56#	2.26#	1.68#	8.71	7.11	
	Diluted (in ₹)	1.56#	2.26#	1.68#	8.71	7.11	

- 2. The above results, as reviewed by the Audit Committee, were approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 15th May, 2024.
- 3. The above is an extract of the detailed format of Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulations 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015. The full format of the quarterly Unaudited Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges at http://www.nseindia.com and http://www.bseindia.com and also on the Company's website at http://www.bergerpaints.com.

For and on behalf of the Board of Directors **Abhijit Roy** Managing Director & CEO

(DIN: 03439064)





Date: 15th May, 2024









Place: Kolkata Date: 15th May, 2024









## सेना पर राहुल की टिप्पणी के खिलाफ भाजपा ने निर्वाचन आयोग में याचिका दायर की

वीर अर्जुन संवाददाता

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को निर्वाचन आयोग से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उनकी उस टिप्पणी के लिए कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार ने सैनिकों की दो श्रेणियां बनाई है, जिनमें से एक गरीब परिवारों और आरक्षित वर्गों से है और दूसरी अमीर परिवारों से है।

केंद्रीय मंत्रियों एस जयशंकर, अर्जुन राम मेघवाल और राजीव चंद्रशेखर सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया और शिकायत दर्ज कराई।भाजपा के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलुनी भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जयशंकर ने संवाददाताओं से कहा, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि नरेन्द्र मोदी ने दो तरह के सैनिक तैयार



निर्वाचन आयोग से मिलकर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर, अर्जुन राम मेघवाल, राजीव चंद्रशेखर व अन्य। (एएनआई)

किए हैं, पहले में गरीबों के बेटे और दलित. आदिवासी, पिछड़े, सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यक शामिल हैं जबिक दूसरे में वे लोग हैं जो अमीरों के बेटे हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, यह झुठ है। यह हमारे सशस्त्र बलों पर हमला है। वे इसे

एक विवादास्पद विषय बनाना चाहते हैं और सशस्त्र बलों का मनोबल गिराना चाहते हैं। यह चुनाव का विषय नहीं है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है।गांधी ने सैनिकों के लिए अग्निपथ भर्ती योजना पर मोदी सरकार पर हमला करते हुए रायबरेली में हाल ही में एक चुनावी रैली में

कथित टिप्पणी की थी। जयशंकर ने राहल की टिप्पणी को बहुत गंभीरै बताया और कहा कि भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने इसे निर्वाचन आयोग के संज्ञान में लाया और उससे कांग्रेस नेता के नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को आरोप खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने और उन्हें अपनी टिप्पणी वापस लेने के लिए कहने का आग्रह किया।उन्होंने कहा, अगर चुनाव के दौरान सेना पर ऐसे हमले किए जाते है...जो हमारी सीमाओं पर तैनात है और देश को चीनी बलों से सुरिक्षत रखने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही है और पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ी है... यदि आप उन पर बिना किसी कारण के और झुठ फैलाकर हमला करते हैं और कहते हैं कि अगर वे शहीद हो गए तो सरकार उनके लिए कुछ नहीं करेगी तो हम इस पर गंभीर आपत्ति जताते हैं। जयशंकर ने कहा कि सशस्त्र बलों के खिलाफ इस तरह के हमले देश के लिए बहुत

में पकड़ी हुई भारत के संविधान की प्रति की

ओर इशारा करते हुए कहा, भाजपा इस

किताब को फाड़ना चाहती है लेकिन हम और

भारत के लोग उन्हें इसकी इजाजत नहीं देंगे।

राहुल ने कहा कि जो भी अब तक देश के

गरीबों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों,

किसानों और मजदूरों को मिला है वह संविधान

की देन है। राहुल ने आशंका जताते हुए कहा,

अगर भाजपा जीतती है तो आरक्षण खत्म कर

ओडिशा के लोग राज्य में सरकार

बदलना चाहते हैं: ओम बिरला

अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को दावा किया कि

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ओडिशा में सरकार

बनाएगी क्योंकि राज्य के लोग सरकार बदलना

चाहते हैं। यहां एक बैठक को संबोधित करते हुए

बिरला ने दावा किया कि ओडिशा के लोग राज्य में

मौजूदा बीजू जनता दल (बीजद) की सरकार के

कुशासन से तंग आ चुके हैं और इस बार वे बदलाव

के लिए प्रतिबद्ध हैं।ओडिशा में लोकसभा और

विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं। राज्य में बीजद

शासन की कड़ी आलोचना करते हुए वरिष्ठ भाजपा

नेता ने कहा. लोगों को धीरे-धीरे यह एहसास हो रहा

है कि पिछले 25 वर्षों से उनके पास एक निकम्मी

सरकार है जो उनके हित में कार्य नहीं कर रही

है डिन्होंने ओडिशा की अस्मिता का मुद्दा भी उठाया

और कहा कि राज्य का गौरव अब खतरे में है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वजह से

भारत की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से 5वें स्थान पर

पहुंच गयी है। इतना ही नहीं मोदी जी के नेतृत्व में

हमारे देश का अभूतपूर्व विकास संभव हुआ है।

बालासोर (ओडिशा), (भाषा)। लोकसभा

## कांग्रेस बजट का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों को आवंटित करना चाहती थी: मोदी

लगाया कि कांग्रेस अपने पिछले शासन के दौरान सरकारी बजट 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए आवंटित करना चाहती थी। इसके साथ ही उन्होंने धर्म के आधार पर बजट को बांटने और नौकरियों या शिक्षा में आरक्षण की अनुमति नहीं देने का संकल्प लिया। उत्तर महाराष्ट्र में नासिक जिले के पिंपलगांव बसवंत में महायुति उम्मीदवारों केंद्रीय मंत्री भारती पवार (भाजपा) और हेमंत गोडसे (शिवसेना) के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि धार्मिक आधार पर बजट

नासिक, (भाषा)। प्रधानमंत्री है।मोदी ने कहा कि संविधान के आरक्षण के खिलाफ थे लेकिन शिल्पी बाबासाहेब आंबेडकर नौकरियों और शिक्षा में धर्म आधारित आरक्षण के सख्त खिलाफ थे।उन्होंने दावा किया कि केंद्र में सत्ता में रहने के दौरान कांग्रेस ने कुल बजट का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों को आवंटित करने की योजना बनाई थी।

उन्होंने कहा, (गुजरात का) मुख्यमंत्री था तो कांग्रेस ने यह प्रस्ताव रखा था। भाजपा ने इस कदम का कडा विरोध किया और इसलिए इसे लागू नहीं किया जा सका। लेकिन कांग्रेस इस प्रस्ताव को फिर से लाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंबेडकर धर्म आधारित

कांग्रेस अनुसूचित जाति (एससी) अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के अधिकार छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। उन्होंने कहा, मोदी समाज के वंचित तबके के अधिकारों का चौकीदार है और कांग्रेस को उनके अधिकार कभी छीनने नहीं देगा। मोदी ने कहा कि मौजूदा लोकसभा चनाव एक ऐसे प्रधानमंत्री के चुनाव के बारे में है जो देश के लिए कड़े फैसले लेता है।प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में उनकी सरकार ने हर धर्म के लोगों को मुफ्त राशन, पानी, बिजली, घर और गैस कनेक्शन प्रदान किए हैं।

## जीएसटी के सभी मामलों में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के सभी मामलों में गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है और ऐसा तभी किया जा सकता है

Proclamation Requiring **Attendance of Defendant** (Order 5, Rule 20 of The Code of Civil Procedure) In The Court of

Amardeep Kaur Administrative Civil Judge/ Addl. Rent Controller (North-West) Room No. 216, Second Floor, Rohini Courts, Delhi.

CS SCJ-100/2021 ICICI Bank ....(Plaintiff) Against

Babar Khan ...(Defendant)

Defendant: Babar Khan S/o Sh. Machchan Khan, R/o H. No.4208, Sultan Mirza Ban Gali, Shahtara Ajmeri Gate, Unchi Masjid, New Delhi-110006. M-9910771317/ 9582786581. Email ID babar khan99@hotmail.com

Also At: Proprietor of B.K. Traders, H. No.4208, Ground Floor, Sultan Mirza Ban Gali Shahtara Ajmeri Chawari Chowk Bazar, New Delhi-110006.

Whereas you intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 16th day of December, 2024 the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the court, this 06th day f May, 2024. Sd/-

1 प्रचालनों से कुल आय

6 इक्विटी शेयर पूंजी

ख) तनुकृत

1 प्रचालनों से कुल आय

कर पूर्व लाभ

कर पश्चात लाग

अतिविशिष्ट मदों से पूर्व)

अतिविशिष्ट मदों के बाद)

और / या अतिविशिष्ट मदों के बाद)

गये पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)

प्रचालनों के लिए) (वार्षिकीकृत नहीं)

वेबसाइट www.aisglass.com पर उपलब्ध है।

Admn. Civil Judge-Cum ARC (N/W) Rohni Courts Delhi.

CIN: L26102DL1984PLC019542

विवरण

अवधि के लिए निवल लाभ (कर, अपवादात्मक और/य

कर पर्व अवधि के लिए निवल लाभ (अपवादात्मक और / य

4 कर पश्चात अवधि के लिए निवल लाभ (अपवादात्मव

5 अवधि के लिए कुल व्यापक आय शिवधि के लिए लाभ (क

पश्चात) और अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल)

आरक्षित (पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाये

8 प्रति शेयर अर्जन (रु. 1/- प्रत्येक) (चालू एवं बंद

नई दिल्ली, (विसं)। उच्चतम जब दोष साबित करने के लिए जीएसटी अधिनियम से संबंधित पक्के सबत और ठोस सामग्री हो।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने सीमा शुल्क अधिनियम और

In The Court of Amardeep Kaur, Administrative Civil Judge/ Addl. Rent Controller (North-West) Room No. 216, Second Floor, Rohini Courts, Delhi. SCC No.186/2023

> NDOH: 17.12.2024 Rakhi

Smt. Rakhi W/o Late Sh. Mahesh Kumar, R/o A-84, Third Floor, Vijay Vihar Phase-2, Delhi-110085. V/S

State

State & Ors.

For Succession Certificate Under Succession Act-1925 All Concerned

Whereas in the above noted petition the applicant/ petitioner have applied for Succession Certificate from the Hon'ble court under section 372 of the Indian Succession Act-1925 respect of the amount & assets which is lying in the name of the deceased Late Sh. Mahesh Kumar S/o Late Vas Dev who was expired on

15.06.2002. Whereas 17/12/2024 at 10 O'clock in the forenoon has been fixed for hearing or the publication notice is hereby given to all concerned to file their objection if any given under my hand and seal of the ourt this on 27/04/2024.

> Sd/-Admn. Civil Judge-Cum ARC (N/W) Rohni Courts Delhi.

असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड

**पंजीकृत कार्यालयः** यूनिट नं. 203—208, त्रिभुवन कॉम्प्लैक्स, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली—110065

कॉर्पोरेट कार्यालयः तीसरा तल, टॉवर-डी, ग्लोबल बिजनैस पार्क, महरौली-गुडगांव रोड,

प्रमाप्त तिमाही

31.03.2024

लेखापरीक्षित

1,10,741

10,032

10,032

7,325

2,431

3.04

3.04

31.03.2024

लेखापरीक्षित

1,03,36

31 मार्च 2024 को समाप्त चौथी तिमाही एवं वर्ष के लिए मुख्य एकल वित्तीय जानकारी

1. उपरोक्त परिणाम सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉव्

एक्सचेंज के साथ दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्

प्रारूप बीएसई एवं एनएसई की वेबसाइट क्रमशः. www.bseindia.com एवं www.nseindia.com और कम्पनी की

. उपरोक्त परिणामो<sup>ँ</sup> की 14 मई 2024 को आयोजित अपनी बैठक में लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्ष

3. कम्पनी के वित्तीय परिणामों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के साथ पठित उसके अधीन बनाए गए नियमों

और भारत में सामान्यता स्वीकार्य अन्य लेखाकरण सिद्धांतों के अंतर्गत निर्धारित इंड एएस 34 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग में

मान्यताप्राप्त एवं मापक सिद्धांतों के अधीन कम्पनी (भारतीय लेखाकरण मानक) (संशोधन) नियम, 2016 द्वारा यथासंशोधित

कम्पनी (भारतीय लेखाकरण मानक) (संशोधन) नियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक ("इंड एएस"

. निर्देशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए रु. 1/– प्रत्येक अंकित मूल्य के रु. 2/– प्रति इक्विटी शेयर लाभांश

की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 15 मई 2024 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है।

गुरुग्राम—122002 (हरियाणा) फोन (0124) 4062212—19 फैक्स (0124) 4062244/88

E-Mail: investorrelations@ aisglass.com वेबसाइट: www.aisglass.com,

31 मार्च 2024 को समाप्त चौथी तिमाही एवं वर्ष के लिए लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणाम

प्रावधानों की संवैधानिक वैधता और व्याख्या को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरिक्षत रखते हुए कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति गिरफ्तारी

In The Court of Amardeep Kaur, Administrative Civil Judge/ Addl. Rent Controller (North-West) Room No. 216, Second Floor, Rohini Courts, Delhi. SCC No.24/2024

NDOH: 15.10.2024 Rajender Parsad Gupta

State

Rajinder Parsad Gupta S/o Late Shri Satya Narain Gupta, R/o C-2/4, Phase-2 Ashok Vihar, Delhi-110052.

State & Ors. For Succession Certificate Under Succession Act-1925

All Concerned Whereas in the above noted petition the applicant/ petitioner have applied for Succession Certificate from the Hon'ble court under

section 372 of the Indian Succession Act-1925 ir respect of the amount & assets which is lying in the name of the deceased Late Sh. Satva Narain Gupta S/o Late Sh. Kesari Chand Gupta who was expired 23.07.2023.

Whereas 15/10/2024 at 10 O'clock in the forenoon has been fixed for hearing or the publication notice is hereby given to all concerned to file their objection if any given under my hand and seal of the court this on 07/05/2024.

Admn. Civil Judge-Cum ARC (N/W) Rohni Courts Delhi.

समाप्त तिमाई

31.03.2023

लेखापरीक्षित

1,07,726

11,232

11,232

6,807

6,806

2,431

2.84

2.84

31.03.2023

लेखापरीक्षित

1,03,92

6,954

समाप्त वर्ष

31.03.2023

लेखापरीक्षि

4,03,515

56,333

56,333

36,167

36,037

15.01

15.01

(रु. लाखा में)

समाप्त वर्ष

31.03.2023

लेखापरीक्षित

3,93,98

Seal

समाप्त वर्ष

31.03.2024

लेखापरीक्षित

4,36,586

44,257

44,257

32,505

32,561

2,431

13.49

13.49

31.03.2024

लेखापरीक्षित

4,17,72

2,05,022

की जरूरत से अलग है। पीठ ने सरकार की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू से कहा, कानून यह नहीं कहता है कि जांच परी करने के लिए आपको गिरफ्तार करने की जरूरत है। कानून का यह उद्देश्य नहीं है। जीएसटी के हरेक मामले में आपको गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है।

**Proclamation Requiring** Attendance of Defendant (Order 5. Rule 20 of The Code of Civil Procedure) In The Court of

Amardeep Kaur Administrative Civil Judge Addl. Rent Controller (North-West) Room No. 216, Second Floor, Rohini Courts, Delhi. CS SCJ-99/2021

ICICI Bank .....(Plaintiff) Against

Devendra Kumar .....(Defendant)

Defendant: Devendra Kumar S/o Sh. Bilguram, R/o H. No. N-446, Sec.-25 Nr. Sunrise School, Noida UP-201301. M-9971213797

Email kumar.devendra03@gamil.o

Also At: Royal Estate & Builder, Designation-Manager, Shop No.10, GBIK Market, Sec.-20, Nr. OBC Bank, Noida, UP-201301 Whereas you are

intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 16th day of December, 2024 the day fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the court, this 06th day of May, 2024.

Sd/-Admn. Civil Judge-Cum ARC (N/W) Rohni Courts Delhi.

In The Court of Ms. Udita Jain Garg, Administrative Civil Judgecum-Commercial Civil Judge-cum-Additional Rent Controller, (West) Court Room No 112, 1 Floor, Tis Hazari Courts, Delhi.

Petition No. SC-59/2023 Kalka S/o Late Sh. Dasau Lal, R/o H. No. T-30, Ground floor, Street No.1, Road No.20, Punjabi Basti, Baljeet Nagar, New Delhi-110008. .....Petitioner/s

Versus

State & Others ....Respondent/s

For Succession Certificate Under Indian Succession Act,-1925

To, All Concerned

Where in the above noted Petition the applicant/ petitioner has applied for Succession Certificate to the Hon'ble Court Under Section 372 of the Indian Succession Act, 1925 in respect of the debt and Securities to be standing in the name of Late Smt. Maika Devi, the Deceased).

Whereas at 10 (Ten) O' clock in the forenoon has been fixed for 23rd July, 2024 hearing on the application notice is hereby given to all concerned.

Given under my hand and the seal of the court, this 01st day of May, 2024.

Admn. Civil Judge-cum-Addl. Rent Controller, (West), Delhi.



कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोलांगीर में चुनावी रैली को सम्बोधित कतरे हुए। (एएनआई)

दिया जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण कर दिया जाएगा और देश को 22 अरबपति चलाएंगे। इसलिए आम लोगों की सरकार बननी चाहिए। राहुल ने दावा किया कि 22 अरबपितयों का 16 लाख करोड़ रूपये का ठूण भाजपा नीत सरकार में माफ कर दिया गया और यह राशि 24 वर्षों के मनरेगा योजना के भत्ते के बराबर है।

उन्होंने दावा किया, उन्होंने आम जनता को कुछ नहीं दिया। उन्होंने किसानों और विद्यार्थियों का ठूण माफ नहीं किया। ठूण तो छोडिंये उन्होंने तो छोटे व्यापारियों को ठुण तक नहीं दिया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि देश की आम जनता से जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के जरिये वसली गयी रकम सिर्फ दो से तीन लोगों के पास जा रही है। राहुल ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह जातिगत जनगणना कराएगी और दलितों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्ग को उचित आरक्षण प्रदान करेगी। उन्होंने कहा. जनगणना के बाद देश में क्रांतिकारी लोकतंत्र या जनता का शासन शुरू होगा। राहुल ने कहा कि हवाई अड्डे उद्योगपितयों को सौप देना और रक्षा सौदे निजी संस्थानों को दे देना ही भाजपा के लिए विकास की परिभाषा है।

## ढांचागत बदलाव में मोदी ने निभाई सक्रिय भूमिका : सीतारमण

नई दिल्ली, (विप्र)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सक्रिय भूमिका और व्यक्तिगत निगरानी ढांचागत क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए जिम्मेदार है जबिक पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में नीतिगत निष्क्रियता होने से इस क्षेत्र को नुकसान उठाना पड़ा था।

सीतारमण ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर अपनी एक पोस्ट में ढांचागत क्षेत्र पर समुचित ध्यान न देने के लिए कांग्रेस की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती संप्रग सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2004-14 के शासनकाल में संप्रग ने भारत की आर्थिक वृद्धि संभावनाओं को व्यर्थ कर दिया और प्रभावी ढांचागत विकास पर ध्यान न देकर देश को पांज नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में धकेल दिया। वित्त मंत्री ने

उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार ने बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान न देकर भारत को न केवल बहुत जरूरी सडकों, रेलवे, बिजली से वंचित कर दिया, बल्कि इसने भारत की दीर्घकालिक आर्थिक क्षमता को भी नजरअंदाज किया।हालांकि, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सक्रिय भूमिका ने बुनियादी ढांचे में बदलाव को संभव बना दिया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने प्रगति मंच के जरिये इन परियोजनाओं की प्रगति की व्यक्तिगत तौर पर निगरानी की है, पहले शुरू की गई परियोजनाओं की भी। इससे लंबे समय से

लटकी परियोजनाएं सफलतापर्वक परी हुई। इसके साथ ही सीतारमण ने मोदी सरकार के समय सार्वजनिक पुंजीगत व्यय में हुई बढोतरी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इससे न संप्रग के तहत भारत की आर्थिक केवल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि को

जरूरतों के लगभग सभी पहलुओं का कुप्रबंधन बढ़ावा मिलता है बिल्क यह अर्थव्यवस्था की किया गया या उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। दीर्घकालिक सक्षमता को भी सुधारती है। धर्म के नाम पर वोट मांगने पर प्रियंका ने भाजपा पर हमला बोला

### जंगलों में आग लगने की घटनाओं पर काबू पाने में

उत्तराखंड का रवैया उदासीन

न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताते हुए बुधवार को कहा कि यह कहते हुए कष्ट हो रहा है कि जंगल की आग को नियंत्रित करने में राज्य का रवैया उदासीन रहा है।न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को 17 मई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भाटी और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि हालांकि कई कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन के लिए कोई कदम

नहीं उठाया जाता।

रायबरेली, (भाषा)। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार नई दिल्ली, (विसं)। उच्चतम को कहा कि पिछले दशक की राजनीति जवाबदेही की नहीं थी। उन्होंने इसके साथ ही कुछ नहीं करने और धर्म के नाम पर वोट मांगने के लिए भाजपा पर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि पिछले 10 साल में जो राजनीति हुई है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि ये धर्म पर आधारित राजनीति है।

रायबरेली लोकसभा सीट से उम्मीदवार राहल गांधी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि भाजपा के नेताओं को अहसास हो गया है कि वे धर्म के नाम पर आपको धोखा देकर, भगवान के नाम पर आपसे भाजपा को वोट देने का



कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली में चुनावी रैली को सम्बोधित करती हुईं।

(एएनआई) वादा लेकर सत्ता में आ सकते हैं।उन्होंने कहा, देश में जिस राजनीति का बोलबाला है, उसके नेता नरेन्द्र मोदी से लेकर यहां के उम्मीदवार तक सब सोचते हैं कि जनता के लिए काम करने की

धर्म के नाम पर ध्यान भटकाते हैं या लोगों को धमकाते हैं। उन्होंने देश में दो तरह की राजनीति हो रही है। एक है सच्चाई, मतदाताओं के प्रति समर्पण और उनके लिए काम करने की इच्छाशक्ति और दूसरी है भाजपा की राजनीति जिसमें वे आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, वोट लेते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रायबरेली में भाजपा उम्मीदवार वोट के लिए ग्राम प्रधानों को धमकी दे रहे हैं। रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा के दिनेश प्रताप सिंह मैदान में हैं।चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा, वे हमें भ्रष्ट

जरूरत नहीं है और वोट के वक्त

## स्पष्ट हो गया है कि भाजपा दक्षिण में साफ और उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में हाफ है : रमेश

रांची. (भाषा)। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के चार चरणों के मतदान से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत में साफ और उत्तर, पश्चिम एवं पूर्वी भारत में हाफ (आधी) हो गई है। उन्होंने रांची में संवाददाताओं से बातचीत में यह आरोप भी लगाया कि निवर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने धार्मिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण किया और अब झुठ बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी हिंदू-मुस्लिम की राजनीति नहीं की।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और चुनाव के शुरूआती चरणों के बाद उनकी हताशा यह कहती है। अमित शाह एक निवर्तमान गृह मंत्री हैं। हम 4 जून के बाद झुठ की महामारी से छुटकारा पा लेंगे। कांग्रेस नेता का कहना था कि अब तक मतदान से यह संकेत मिल गया है कि भाजपा दक्षिण भारत में साफ और उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में हाफ रहने वाली है।



कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश रांची में मीडिया (छाया : एएनआई) को संबोधित करते हुए।

सरकार बनाएगा और राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना सुनिश्चित करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने बार-बार इस बात पर जोर दिया के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ईडी, सीबीआई और है कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए रमेश ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन केंद्र में आयकर विभाग का बुरी तरह दुरूपयोग किया है।

कहते हैं।

### चुनाव बाद हिंसा को लेकर आंध्र के मुख्य सचिव व डीजीपी तलब

नई दिल्ली, (विप्र)। निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश में चुनाव बाद हिंसा का संज्ञान लेते हुए घटनाओं को रोकने में प्रशासन की विफलता पर व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण देने के लिए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को बृहस्पतिवार को तलब किया है।सूत्रों ने यह जानकारी दी है।आयोग ने राज्य सरकार को आदर्श आचार संहिता के अभी लागू होने की याद दिलाते हुए मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख से यह सुनिश्चित करने को कहा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। अधिकारियों ने बताया कि आयोग कोई जगह नहीं है।

की सिफारिश की है। भुगतान कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। स्थानः गुरूग्राम तिथि: 15 मई 2024

के अनुरूप तैयार किया गया है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से संजय लाबरू

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक